



Shivi Tiwari

03 Feb 2006

11:29 PM

Ayodhya

Model: Web-MyKundli

Order No: 121382301

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

लिंग _____: स्त्रीलिंग
जन्म तिथि _____: 03/02/2006
दिन _____: शुक्रवार
जन्म समय _____: 23:29:00 घंटे
इष्ट _____: 41:47:51 घटी
स्थान _____: Ayodhya
राज्य _____: Uttar Pradesh
देश _____: India

अक्षांश _____: 26:47:00 उत्तर
रेखांश _____: 82:12:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:01:12 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 23:27:48 घंटे
वेलान्तर _____: -00:13:49 घंटे
साम्पातिक काल _____: 08:22:53 घंटे
सूर्योदय _____: 06:45:51 घंटे
सूर्यास्त _____: 17:44:27 घंटे
दिनमान _____: 10:58:36 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: उत्तरायण
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: शिशिर
सूर्य के अंश _____: 20:49:37 मकर
लग्न के अंश _____: 07:44:56 तुला

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: तुला - शुक्र
राशि-स्वामी _____: मेष - मंगल
नक्षत्र-चरण _____: अश्विनी - 1
नक्षत्र स्वामी _____: केतु
योग _____: साध्य
करण _____: तैतिल
गण _____: देव
योनि _____: अश्व
नाड़ी _____: आद्य
वर्ण _____: क्षत्रिय
वश्य _____: चतुष्पाद
वर्ग _____: सिंह
युँजा _____: पूर्व
हंसक _____: अग्नि
जन्म नामाक्षर _____: चू-चुन्नी
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: ताम्र - स्वर्ण
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: कुम्भ

आचार्य उज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगापुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1927	माघ	14
पंजाबी	संवत : 2062	माघ	21
बंगाली	सन् : 1412	माघ	20
तमिल	संवत : 2062	थई	21
केरल	कोल्लम : 1181	मकरम	21
नेपाली	संवत : 2062	माघ	21
चैत्रादि	संवत : 2062	माघ	शुक्ल 6
कार्तिकादि	संवत : 2062	माघ	शुक्ल 6

पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 6
तिथि समाप्ति काल _____ : 25:33:01
जन्म तिथि _____ : 6
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : रेवती
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 20:30:52 घंटे
जन्म योग _____ : अश्विनी
सूर्योदय कालीन योग _____ : साध्य
योग समाप्ति काल _____ : 24:45:04 घंटे
जन्म योग _____ : साध्य
सूर्योदय कालीन करण _____ : कौलव
करण समाप्ति काल _____ : 14:24:38 घंटे
जन्म करण _____ : तैतिल
भयात _____ : 07:25:18
भभोग _____ : 58:14:48
भोग्य दशा काल _____ : केतु 6 वर्ष 1 मा 4 दि

घात चक्र

मास _____ : कार्तिक
तिथि _____ : 1-6-11
दिन _____ : रविवार
नक्षत्र _____ : मघा
योग _____ : विष्कुम्भ
करण _____ : बव
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : मृग
लग्न _____ : मेष
सूर्य _____ : कर्क
चन्द्र _____ : मेष
मंगल _____ : सिंह
बुध _____ : वृष
गुरु _____ : कन्या
शुक्र _____ : तुला
शनि _____ : मिथुन
राहु _____ : वृश्चिक

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी


श्री धाम अयोध्या जी (सारंगापुर)

7906311562 , 7388947439


Ujjwalkrishna7388@gmail.com

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुंडली

रा	मं चं		
			श
बु सू			
शु		गु ल	के

लग्न कुंडली

	मं चं	रा
श		बु सू
के	ल गु	शु

विंशोत्तरी
केतु 6वर्ष 1मा 4दि
केतु

03/02/2006

12/03/2125

केतु	10/03/2012
शुक्र	10/03/2032
सूर्य	11/03/2038
चन्द्र	10/03/2048
मंगल	11/03/2055
राहु	11/03/2073
गुरु	11/03/2089
शनि	11/03/2108
बुध	12/03/2125

योगिनी
भामरी 3वर्ष 5मा 24दि
सिद्धा

30/07/2020

30/07/2027

सिद्धा	09/12/2021
संकटा	30/06/2023
मंगला	09/09/2023
पिंगला	29/01/2024
धान्या	29/08/2024
भामरी	09/06/2025
भद्रिका	30/05/2026
उल्का	30/07/2027

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			तुला	07:44:56	315:43:46	स्वाति	1	15	शुक्र	राहु	राहु	---
सूर्य			मक	20:49:37	01:00:52	श्रवण	4	22	शनि	चंद्र	शुक्र	शत्रु राशि
चंद्र			मेष	01:43:12	13:52:51	अश्विनी	1	1	मंगल	केतु	शुक्र	सम राशि
मंगल			मेष	29:19:51	00:26:59	कृतिका	1	3	मंगल	सूर्य	राहु	स्वराशि
बुध	अ		मक	26:32:42	01:46:48	धनिष्ठा	1	23	शनि	मंगल	गुरु	सम राशि
गुरु			तुला	23:37:57	00:05:11	विशाखा	2	16	शुक्र	गुरु	शनि	शत्रु राशि
शुक्र			धनु	22:04:57	00:00:52	पूर्वाषाढा	3	20	गुरु	शुक्र	शनि	सम राशि
शनि	व		कर्क	13:21:59	00:04:51	पुष्य	4	8	चंद्र	शनि	राहु	शत्रु राशि
राहु			मीन	11:41:32	00:00:57	उ०भाद्रपद	3	26	गुरु	शनि	चंद्र	सम राशि
केतु			कन्या	11:41:32	00:00:57	हस्त	1	13	बुध	चंद्र	मंगल	शत्रु राशि
हर्ष			कुंभ	15:20:05	00:03:12	शतभिषा	3	24	शनि	राहु	शुक्र	---
नेप			मक	23:14:56	00:02:17	श्रवण	4	22	शनि	चंद्र	सूर्य	---
प्लूटो			धनु	02:02:41	00:01:38	मूल	1	19	गुरु	केतु	शुक्र	---
दशम भाव			कर्क	09:28:28	--	पुष्य	--	8	चंद्र	शनि	शुक्र	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:56:31


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	कन्या 23:02:12	तुला 07:44:56
2	तुला 23:02:12	वृश्चिक 08:19:27
3	वृश्चिक 23:36:42	धनु 08:53:58
4	धनु 24:11:13	मकर 09:28:28
5	मकर 24:11:13	कुम्भ 08:53:58
6	कुम्भ 23:36:42	मीन 08:19:27
7	मीन 23:02:12	मेष 07:44:56
8	मेष 23:02:12	वृष 08:19:27
9	वृष 23:36:42	मिथुन 08:53:58
10	मिथुन 24:11:13	कर्क 09:28:28
11	कर्क 24:11:13	सिंह 08:53:58
12	सिंह 23:36:42	कन्या 08:19:27


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	तुला	07:44:56
2	वृश्चिक	06:45:29
3	धनु	07:26:33
4	मकर	09:28:28
5	कुम्भ	11:35:04
6	मीन	11:29:54
7	मेष	07:44:56
8	वृष	06:45:29
9	मिथुन	07:26:33
10	कर्क	09:28:28
11	सिंह	11:35:04
12	कन्या	11:29:54


तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा
मघा	पूर्वाफाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा
मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पूर्वाभाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती

चलित कुंडली



भाव कुंडली



आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : केतु 6 वर्ष 1 मास 4 दिन

केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष
03/02/2006	10/03/2012	10/03/2032	11/03/2038	10/03/2048
10/03/2012	10/03/2032	11/03/2038	10/03/2048	11/03/2055
03/02/2006	शुक्र 11/07/2015	सूर्य 28/06/2032	चंद्र 09/01/2039	मंगल 07/08/2048
शुक्र 07/10/2006	सूर्य 10/07/2016	चंद्र 28/12/2032	मंगल 10/08/2039	राहु 25/08/2049
सूर्य 12/02/2007	चंद्र 11/03/2018	मंगल 04/05/2033	राहु 08/02/2041	गुरु 01/08/2050
चंद्र 13/09/2007	मंगल 11/05/2019	राहु 29/03/2034	गुरु 10/06/2042	शनि 10/09/2051
मंगल 09/02/2008	राहु 11/05/2022	गुरु 15/01/2035	शनि 10/01/2044	बुध 06/09/2052
राहु 26/02/2009	गुरु 09/01/2025	शनि 28/12/2035	बुध 10/06/2045	केतु 02/02/2053
गुरु 02/02/2010	शनि 10/03/2028	बुध 03/11/2036	केतु 09/01/2046	शुक्र 04/04/2054
शनि 14/03/2011	बुध 09/01/2031	केतु 11/03/2037	शुक्र 10/09/2047	सूर्य 10/08/2054
बुध 10/03/2012	केतु 10/03/2032	शुक्र 11/03/2038	सूर्य 10/03/2048	चंद्र 11/03/2055

राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष
11/03/2055	11/03/2073	11/03/2089	11/03/2108	12/03/2125
11/03/2073	11/03/2089	11/03/2108	12/03/2125	00/00/0000
राहु 21/11/2057	गुरु 29/04/2075	शनि 13/03/2092	बुध 08/08/2110	केतु 08/08/2125
गुरु 16/04/2060	शनि 09/11/2077	बुध 22/11/2094	केतु 05/08/2111	शुक्र 04/02/2126
शनि 21/02/2063	बुध 15/02/2080	केतु 31/12/2095	शुक्र 05/06/2114	00/00/0000
बुध 09/09/2065	केतु 21/01/2081	शुक्र 02/03/2099	सूर्य 12/04/2115	00/00/0000
केतु 28/09/2066	शुक्र 22/09/2083	सूर्य 12/02/2100	चंद्र 10/09/2116	00/00/0000
शुक्र 28/09/2069	सूर्य 10/07/2084	चंद्र 13/09/2101	मंगल 07/09/2117	00/00/0000
सूर्य 22/08/2070	चंद्र 09/11/2085	मंगल 23/10/2102	राहु 27/03/2120	00/00/0000
चंद्र 21/02/2072	मंगल 16/10/2086	राहु 29/08/2105	गुरु 03/07/2122	00/00/0000
मंगल 11/03/2073	राहु 11/03/2089	गुरु 11/03/2108	शनि 12/03/2125	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल केतु 6 वर्ष 1 मा 9 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

शुक्र - शनि	शुक्र - बुध	शुक्र - केतु	सूर्य - सूर्य	सूर्य - चंद्र
09/01/2025	10/03/2028	09/01/2031	10/03/2032	28/06/2032
10/03/2028	09/01/2031	10/03/2032	28/06/2032	28/12/2032
शनि 11/07/2025	बुध 04/08/2028	केतु 03/02/2031	सूर्य 16/03/2032	चंद्र 13/07/2032
बुध 22/12/2025	केतु 03/10/2028	शुक्र 15/04/2031	चंद्र 25/03/2032	मंगल 24/07/2032
केतु 27/02/2026	शुक्र 25/03/2029	सूर्य 06/05/2031	मंगल 31/03/2032	राहु 20/08/2032
शुक्र 08/09/2026	सूर्य 16/05/2029	चंद्र 11/06/2031	राहु 17/04/2032	गुरु 14/09/2032
सूर्य 05/11/2026	चंद्र 10/08/2029	मंगल 06/07/2031	गुरु 01/05/2032	शनि 12/10/2032
चंद्र 09/02/2027	मंगल 09/10/2029	राहु 08/09/2031	शनि 19/05/2032	बुध 07/11/2032
मंगल 18/04/2027	राहु 13/03/2030	गुरु 04/11/2031	बुध 03/06/2032	केतु 18/11/2032
राहु 08/10/2027	गुरु 29/07/2030	शनि 10/01/2032	केतु 10/06/2032	शुक्र 18/12/2032
गुरु 10/03/2028	शनि 09/01/2031	बुध 10/03/2032	शुक्र 28/06/2032	सूर्य 28/12/2032

सूर्य - मंगल	सूर्य - राहु	सूर्य - गुरु	सूर्य - शनि	सूर्य - बुध
28/12/2032	04/05/2033	29/03/2034	15/01/2035	28/12/2035
04/05/2033	29/03/2034	15/01/2035	28/12/2035	03/11/2036
मंगल 04/01/2033	राहु 23/06/2033	गुरु 07/05/2034	शनि 11/03/2035	बुध 10/02/2036
राहु 23/01/2033	गुरु 06/08/2033	शनि 22/06/2034	बुध 29/04/2035	केतु 28/02/2036
गुरु 09/02/2033	शनि 27/09/2033	बुध 03/08/2034	केतु 20/05/2035	शुक्र 20/04/2036
शनि 02/03/2033	बुध 12/11/2033	केतु 20/08/2034	शुक्र 17/07/2035	सूर्य 06/05/2036
बुध 20/03/2033	केतु 01/12/2033	शुक्र 08/10/2034	सूर्य 03/08/2035	चंद्र 01/06/2036
केतु 27/03/2033	शुक्र 25/01/2034	सूर्य 22/10/2034	चंद्र 01/09/2035	मंगल 19/06/2036
शुक्र 17/04/2033	सूर्य 11/02/2034	चंद्र 15/11/2034	मंगल 21/09/2035	राहु 04/08/2036
सूर्य 24/04/2033	चंद्र 10/03/2034	मंगल 03/12/2034	राहु 12/11/2035	गुरु 15/09/2036
चंद्र 04/05/2033	मंगल 29/03/2034	राहु 15/01/2035	गुरु 28/12/2035	शनि 03/11/2036

सूर्य - केतु	सूर्य - शुक्र	चंद्र - चंद्र	चंद्र - मंगल	चंद्र - राहु
03/11/2036	11/03/2037	11/03/2038	09/01/2039	10/08/2039
11/03/2037	11/03/2038	09/01/2039	10/08/2039	08/02/2041
केतु 10/11/2036	शुक्र 11/05/2037	चंद्र 05/04/2038	मंगल 22/01/2039	राहु 01/11/2039
शुक्र 02/12/2036	सूर्य 29/05/2037	मंगल 23/04/2038	राहु 23/02/2039	गुरु 13/01/2040
सूर्य 08/12/2036	चंद्र 28/06/2037	राहु 08/06/2038	गुरु 23/03/2039	शनि 08/04/2040
चंद्र 19/12/2036	मंगल 20/07/2037	गुरु 18/07/2038	शनि 26/04/2039	बुध 25/06/2040
मंगल 26/12/2036	राहु 12/09/2037	शनि 04/09/2038	बुध 26/05/2039	केतु 27/07/2040
राहु 14/01/2037	गुरु 31/10/2037	बुध 18/10/2038	केतु 07/06/2039	शुक्र 26/10/2040
गुरु 31/01/2037	शनि 28/12/2037	केतु 04/11/2038	शुक्र 13/07/2039	सूर्य 23/11/2040
शनि 21/02/2037	बुध 18/02/2038	शुक्र 25/12/2038	सूर्य 24/07/2039	चंद्र 07/01/2041
बुध 11/03/2037	केतु 11/03/2038	सूर्य 09/01/2039	चंद्र 10/08/2039	मंगल 08/02/2041

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

मूलांक	3
भाग्यांक	4
मित्र अंक	3, 5, 7, 9, 4
शत्रु अंक	1, 8
शुभ वर्ष	21,30,39,48,57
शुभ दिन	शनि, बुध, शुक्र
शुभ ग्रह	शनि, बुध, शुक्र
मित्र राशि	कर्क, धनु
मित्र लग्न	मकर, मिथुन, सिंह
अनुकूल देवता	हनुमान
शुभ रत्न	हीरा
शुभ उपरत्न	जरकिन, ओपल
भाग्य रत्न	पन्ना
शुभ धातु	रजत
शुभ रंग	रजत
शुभ दिशा	दक्षिणपूर्व
शुभ समय	सूर्योदय
दान पदार्थ	मिसरी, दधि, श्वेतचन्दन
दान अन्न	चावल
दान द्रव्य	दूध

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगापुर)

7906311562 , 7388947439


Ujjwalkrishna7388@gmail.com

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
नीलम	शनि	95%	व्यावसायिक उन्नति, सुख, सन्तति सुख
पन्ना	बुध	77%	सुख, भाग्योदय, कम खर्च
मोती	चंद्र	69%	दम्पति, व्यावसायिक उन्नति
हीरा	शुक्र	62%	पराक्रम, दुर्घटना से बचाव, स्वास्थ्य
गोमेद	राहु	53%	शत्रु व रोग मुक्ति, स्वास्थ्य
माणिक्य	सूर्य	52%	सुख, धनार्जन
पुखराज	गुरु	47%	रोग, पराक्रम हानि, शत्रु व रोग
लहसुनिया	केतु	44%	व्यय, ग्रह कलेश
मूंगा	मंगल	34%	दाम्पत्य कष्ट, धन हानि



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
केतु	10/03/2012	28%	56%	46%	77%	47%	69%	83%	31%	59%
शुक्र	10/03/2032	28%	56%	34%	83%	47%	75%	100%	59%	53%
सूर्य	11/03/2038	64%	75%	46%	77%	55%	50%	83%	31%	19%
चंद्र	10/03/2048	58%	81%	34%	83%	47%	62%	95%	31%	19%
मंगल	11/03/2055	58%	75%	54%	64%	55%	62%	95%	31%	53%
राहु	11/03/2073	28%	56%	9%	77%	47%	69%	100%	66%	19%
गुरु	11/03/2089	58%	75%	46%	64%	61%	50%	95%	53%	44%
शनि	11/03/2108	28%	56%	9%	83%	47%	69%	100%	59%	19%
बुध	12/03/2125	58%	56%	34%	89%	47%	69%	95%	53%	44%

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	03/02/2006-01/11/2006 10/01/2007-16/07/2007	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	02/11/2014-26/01/2017 21/06/2017-26/10/2017	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	29/03/2025-03/06/2027 20/10/2027-23/02/2028	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	03/06/2027-20/10/2027 23/02/2028-08/08/2029 05/10/2029-17/04/2030	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	08/08/2029-05/10/2029 17/04/2030-31/05/2032	-----

द्वितीय चक्र:

चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	11/12/2043-23/06/2044 30/08/2044-08/12/2046	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	14/05/2054-02/09/2054 05/02/2055-07/04/2057	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	07/04/2057-27/05/2059	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	27/05/2059-11/07/2061 13/02/2062-07/03/2062	-----

तृतीय चक्र:

चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	24/08/2063-06/02/2064 09/05/2064-13/10/2065 03/02/2066-03/07/2066
अष्टम स्थानस्थ ढैया	05/02/2073-31/03/2073 23/10/2073-16/01/2076 11/07/2076-11/10/2076
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	20/03/2084-21/05/2086 21/05/2086-08/02/2087
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	21/05/2086-21/05/2086 08/02/2087-18/07/2088 31/10/2088-05/04/2089
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	18/07/2088-31/10/2088 05/04/2089-19/09/2090 25/10/2090-21/05/2091

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार	फल	क्षेत्र
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	सम	व्यावसायिक परेशानी
अष्टम स्थानस्थ ढैया	अशुभ	धन
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	शुभ	शत्रु व रोग
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	सम	दाम्पत्य कलह
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	सम	दुर्घटना से बचाव

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति सप्तम भाव में है। अतः आप एक मांगलिक कन्या हैं। चूंकि आपका मांगलिक दोष भंग नहीं हो रहा है अतः इसके प्रभाव से आपके पति का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा स्वभाव से ही उनमें उग्रता रहेगी जिससे यदा कदा परस्पर संबंधों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन यह अल्प समय के लिए होंगे तथा दाम्पत्य जीवन पर इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा। आप भी यदा कदा पित या गर्मी आदि से परेशानी की अनुभूति कर सकती हैं। मंगल के इस प्रभाव से आपके विवाह कार्य में विलम्ब होने की संभावना रहेगी तथा विवाह से पूर्व वार्ताओं में भी गतिरोध रहेगा लेकिन अन्त में आप को सफलता अवश्य प्राप्त होगी तथा सामान्य रूप से दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी।

सप्तम भावस्थ मंगल के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा पित जन्य दोषों से आपको परेशानी हो सकती है। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि से कार्य क्षेत्र में आप परिश्रम एवं पराक्रम से इच्छित सफलता अर्जित करेंगी तथा समाज से भी न्यूनाधिक मान सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी। लग्न पर दृष्टि के प्रभाव से स्वभाव में तेजस्विता का भाव रहेगा तथा यदा कदा मानसिक अशान्ति की भी अनुभूति हो सकती है। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से पारिवारिक सुख शान्ति तथा समृद्धि मध्यम रहेगी तथा यदा कदा पारिवारिक जनों के मध्य मतभेद उत्पन्न होंगे जिससे परिवार की शान्ति प्रभावित होगी लेकिन इसका दुष्प्रभाव अल्प मात्रा में ही रहेगा।

अतः अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखी एवं सम्पन्न बनाने के लिए आपको किसी ऐसे मांगलिक पुरुष से विवाह करना चाहिए जिससे आपका परस्पर मांगलिक दोष भंग हो सके। इसके लिए पुरुष की कुंडली में मांगलिक भावों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि तथा राहु जैसे पापग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। इससे आपके

सुख सौभाग्य एवं ऐश्वर्य में वृद्धि होगी तथा सुखी एवं प्रसन्नता पूर्वक आपका दाम्पत्य जीवन व्यतीत होगा। आपसी संबंधों में भी मधुरता तथा सहयोग का भाव विद्यमान रहेगा।



आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- पंचम भाव का स्वामी शनि है तथा उस पर राहु का प्रभाव है।
- नवम भाव के स्वामी पर शनि का प्रभाव है।

आपकी कुण्डली में बुध और शनि के कारण पितृदोष है।

आपकी कुण्डली में बुध पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला सदस्य द्वारा बच्चों पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ आप बहन, बुआ तथा मौसी की सेवा करके आर्शीवाद लें तथा तोते को हरी मिर्च खिलाकर पिंजड़े से मुक्त कर दें।

आपकी कुण्डली में शनि पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा दलित पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ भगवान रुद्र की पूजा करें। पीपल को जल चढ़ायें व पूजा करें। शम्मी की समिधा से हवन करें। बकरी व शनि प्रीतकारी वस्तुओं का दान करें। गरीब या जरूरतमंदों की सहायता के रूप में दान दें तथा कौए को खाने का पहला ग्रास खिलायें।

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

ग्रह फल

सूर्य

चतुर्थभाव में सूर्य हो तो जातक परमसुन्दर, कठोर, पितृधननाशक, चिन्तास्त, भाईयों से वैर करने वाला, गुप्तविद्या प्रिय एवं वाहन सुखहीन होता है।

मकर राशि में रवि हो तो जातक बहुभाषी, चंचल, झगड़ालू, दुराचारी, लोभी एवं परिश्रमी होता है।

आपके जन्मकाल में सूर्य की स्थिति चतुर्थ भाव में है अतः आपके पिता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा एवं समय समय पर वे शारीरिक व्याकुलता की अनुभूति करेंगे। आपके प्रति उनके मन में स्नेह का भाव विद्यमान रहेगा। धन वैभव से वे प्रायः युक्त रहेंगे एवं जीवन में सर्वप्रकार से आपको सहयोग प्रदान करने के लिए यत्नशील रहेंगे। आप उनसे सामान्यतया धन सम्मान एवं वाहनादि भी प्राप्त करेंगी। इसके साथ ही वे व्यापार तथा अजीविका सम्बन्धी कार्यों में भी आपकी सहायता करेंगे।

आपके मन में उनके प्रति सामान्य श्रद्धा का भाव विद्यमान रहेगा एवं इच्छानुसार यदाकदा उनकी आज्ञा का अनुपालन भी करती रहेंगी। परन्तु आपके आपसी सम्बन्ध मधुर नहीं रहेंगे एवं परस्पर कई प्रकार के मतभेद विद्यमान रहेंगे फिर भी आप अपनी ओर से उन्हें कम से कम कष्टानुभूति के लिये सतत् प्रयत्नशील रहेंगी एवं अवसरानुकूल उनकी सहायता करने के लिए भी तत्पर रहेंगी।

चन्द्र

सप्तमभाव में चन्द्रमा हो तो जातक सभ्य, धैर्यवान् नेता, विचारक, प्रावासी, जलयात्रा करने वाला, व्यापारी, अभिमानी, वकील, कीर्तिमान, शीतल स्वभाववाला एवं स्फूर्तिवान् होता है।

मेष राशि में चन्द्रमा हो तो जातक स्थिर सम्पत्तिवान्, शूर, दृढ़ शरीरवाला, बन्धुहीन, कामी, उतावला, जलभीरु, यात्रा करने का शौकीन, आत्माभिमानी एवं साहसी होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा सप्तम भाव में स्थित है। अतः माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। आपके प्रति उनके मन में प्यार एवं स्नेह का भाव रहेगा। धन सम्पत्ति से वे सर्वदा युक्त रहेंगी एवं जीवन में आपको अपना सहयोग प्रदान करेंगी। आपकी शादी करने में भी उनका विशेष सहयोग रहेगा तथा आपको व्यापारादि कार्यों में भी पूर्ण आर्थिक या अन्य रूप से सहयोग तथा प्रोत्साहन देंगी।

आप भी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धालु रहेंगी एवं हमेशा उनका हार्दिक सम्मान करेंगी। उनकी बातों से आप प्रायः सहमत रहेंगी तथा उसका पालन करने के लिए भी तत्पर रहेंगी। आपके मध्य कभी कभी सैद्धान्तिक मतभेदों की भी उत्पत्ति होगी जिसके कारण कभी कभी

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

अप्रिय स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। परन्तु कुल मिलाकर आपसी संबंध अच्छे रहेंगे तथा एक दूसरे का सहयोग करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे।

मंगल

सातवें भाव में मंगल हो तो जातक वातरोगी, राजभीरु, शीघ्रकोपी, कटुभाषी, स्त्रीदुःखी, धूर्त, मूर्ख, निर्धन, घातकी, धननाशक एवं ईर्ष्यालु होता है।

मेष राशि में मंगल हो तो जातक सत्यवक्ता, तेजस्वी, शूरवीर, नेता, साहसी, धनवान्, लोकमान्य, दानी एवं राजमान्य होता है।

आपके जन्म समय में मंगल सप्तम भाव में स्थित है अतः भाई बहिनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा वे शारीरिक रूप से कष्टानुभूति भी प्राप्त करेंगे। आप उनकी प्रिय रहेंगी तथा आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह तथा सम्मान का भाव विद्यमान रहेगा। धन धान्य से वे युक्त रहेंगे तथा जीवन में उनसे आप पूर्ण रूपेण सहयोग प्राप्त करेंगी एवं आपकी विवाह सम्पन्न कराने में भी उनका मुख्य योगदान रहेगा। साथ ही व्यापार संबंधी कार्यों एवं सुख दुःख में वे आपको अपनी ओर से पूर्ण आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहायता प्रदान करते रहेंगे।

आपके मन में भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह एवं विश्वास रहेगा एवं उनके समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपका सहयोग रहेगा। साथ ही विषम परिस्थितियों में भी आप उनको आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहायता प्रदान करेंगी। आपके आपसी संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण इसमें कटुता भी आएगी लेकिन यह अस्थायी होगी तथा शीघ्र संबंध सामान्य हो जाएंगे।

बुध

चतुर्थभाव में बुध हो तो जातक पण्डित भाग्यवान् नीतिवान्, नीतिज्ञ, लेखक, विद्वान्, बन्धुप्रेमी, उदार, गतिप्रिय, आलसी, स्थूलदेही, वाहनसुखी एवं दानी होता है।

मकर राशि में बुध हो तो जातक कुलहीन, दुश्शील, मिथ्याभाषी, ऋणी, मूर्ख, डरपोक, व्यापार में रुचि लेने वाला, किफायतसार, चतुर एवं परिश्रमी होता है।

गुरु

लग्न (प्रथम) में गुरु हो तो जातक विद्वान् दीर्घायु, ज्योतिषी कार्यपरायण, लोकसेवक, तेजस्वी, प्रतिष्ठित, स्पष्टवक्ता, स्वाभिमानी, सुन्दर, सुखी, विनीत, पुत्रवान् धनवान्, राज्यमान, सुन्दर एवं धर्मात्मा होता है।

तुला राशि में गुरु हो तो जातक सुन्दर, उदार, बली, योग्य धार्मिक, प्रवृत्ति, निष्पक्ष, बुद्धिमान्, व्यापार कुशल, कवि, लेखक, सम्पादक, बहुपुत्रवान् एवं सुखी होता है।

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

शुक्र

तृतीय भाव में शुक्र हो तो जातक विद्वान्, कलाकार, आलसी, कृपण, धनी, सुखी, पराकमी, भाग्यवान्, बहने भाईयों से अधिक एवं पर्यटनशील होता है।

धनु राशि में शुक्र हो तो जातक धनी, बलशाली, स्वोपार्जित द्रव्य द्वारा पुण्य करने वाला, विद्वान्, सुन्दर, लोकमान्य, राज्यमान्य, सुखी घरेलू जीवन, उच्चपद की प्राप्ति एवं प्रभावशाली होता है।

शनि

दशम भाव में शनि हो तो जातक विद्वान्, ज्योतिषी, राजयोगी, न्यायी, नेता, धनवान्, राजमान्य, उदरविकारी, अधिकारी, चतुर, भाग्यवान् परिश्रमी, निरुद्धयोगी एवं महत्त्वाकांक्षी होता है।

कर्क राशि में शनि हो तो जातक, गरीब, कमसन्तान, बाल्यावस्था में दुखी, मातृरहित, प्राज्ञ, उन्नतिशील, विद्वान्, हठी एवं स्वार्थी होता है।

राहु

षष्ठभावे में राहु हो तो जातक शत्रुहन्ता, कमरदर्द पीड़ित, अरिष्टनिवारक, विदेशियों से लाभ, पराकमी, बड़े-बड़े कार्य करनेवाला, दीर्घायु, साहसी, धनी एवं प्रसिद्ध होता है।

मीन राशि में राहु हो तो जातक आस्तिक, कुलीन, शान्त, कलाप्रिय और दक्ष होता है।

केतु

बारहवें भाव में केतु हो तो जातक चंचल बुद्धि, धूर्त, ढग तांत्रिक, अतव्ययी निर्बल स्वास्थ्य, पागलपन, मोक्ष प्राप्ति, अविश्वासी एवं जनता को भूत-प्रेतों की जानकारी द्वारा ढगने वाला होता है।

कन्या राशि में केतु हो तो जातक सदारोगी, मूर्ख, मन्दाग्निरोग एवं व्यर्थवादी होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- शुक्र
(10/03/2012 - 10/03/2032)

आपकी कुण्डली में शुक्र की महादशा 10/03/2012 को आरम्भ होकर 10/03/2032 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 20 वर्ष है।

आपकी जन्म कुण्डली में शुक्र तृतीय भाव में स्थित है। यह एक शुभ ग्रह है जिसकी सामान्यतया दो राशियाँ- बृष और तुला हैं। यह मीन राशि में उच्च का तथा कन्या राशि में निम्न का होता है। यह आनन्द, प्रेम-संबंध, स्वाद, फैशन डिजाइनिंग तथा जीवन के आनन्द का द्योतक है। यह आपकी कुण्डली में तृतीय भाव में स्थित है तथा नवम भाव पर इसकी दृष्टि है और इस भाव पर अपना शुभ प्रभाव डाल रहा है।

तृतीय भाव मानसिकता, बुद्धि, साहस, दृढ़ता, छोटे भाई-बहनों, छोटी यात्रा, गमनागमन, पत्राचार, अफवाह, हाथ, गले, कन्धों, हँसली तथा स्नायु तंत्र का द्योतक है।

स्वास्थ्य :

तृतीय भाव में स्थित महादशा स्वामी शुक्र भाव को प्रबलित कर रहा है और इसके फलस्वरूप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने में साहस की प्राप्ति होगी। आपको कोई बड़ी या मामूली स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी और इस दशा के दौरान आपका जीवन सामान्य रहेगा।

अर्थ-संपत्ति :

शुक्र के कारण आपको समृद्धि तथा संपत्ति की प्राप्ति होगी और आपमें कठिनाइयों का सामना करने का साहस उत्पन्न होगा। इस दशा के दौरान आपको कुछ अचल संपत्ति प्राप्त होने की संभावना है और आप भोग-विलास तथा आराम संबंधी वस्तुओं पर व्यय करेंगे। आपको उपलब्धियों की प्राप्ति और संपत्ति की वृद्धि में बाधा आएगी तथा आपके ऊपर ऋण का बोझ पड़ सकता है या नुकसान हो सकता है जिसके लिए आपको आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए।

व्यवसाय :

आपकी मानसिक शक्ति अच्छी है इसलिए आप संगीत, गायन, नृत्य और ललित कला का आनन्द लेंगे। आप नाटकीय गतिविधियों या ललित कला से संबंधित गतिविधियों से धनोपार्जन और जीवन का आनन्द प्राप्त करेंगे। आप व्यावसायिक दृष्टि से सुदृढ़ हैं और अपने पिता के व्यवसाय में शामिल हो सकते हैं क्योंकि आपकी जन्म कुण्डली में तृतीय भाव में स्थित शुक्र की दृष्टि नवम् भाव पर है।

पारिवारिक जीवन :

आपका पारिवारिक जीवन सौहार्द्रपूर्ण होगा क्योंकि आपके जीवन साथी आपके सहायक होंगे। आपको बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा किन्तु अपने भाई-बहनों के साथ मतभेद भी

आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

हो सकता है जिससे परिवार में तनाव उत्पन्न होगा।



आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com

**अंतर्दशा :- शुक्र - शनि
(09/01/2025 - 10/03/2028)**

शुक्र महादशा की अवधि 20 वर्ष होती है। आपके लिए यह 10/03/2012 को प्रारंभ हुई थी और वद 10/03/2032 को समाप्त होगी। इस महादशा में शनि अंतर्दशा की अवधि 3 वर्ष 2 मास होगी। आपके लिए यह 09/01/2025 को प्रारंभ होकर 10/03/2028 को समाप्त होगी।

शनि आपकी जन्मपत्री में दशम भाव में स्थित है। दशम भाव सम्मान, जनता, सत्ता, सफलता, पद और साख, दुनियादारी, प्रोन्नति, नियुक्ति, धार्मिक कार्य, सरकार से सम्मान और जांघों का परिचायक है।

शनि शुभ ग्रह है। दशम भाव में स्थित होकर शनि आपकी कुंडली के 12, 4, 7 भावों पर दृष्टि डाल रहा है और उनके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आप उच्चपद पर आसीन होंगे, सिद्धांतवादी रहेंगे, मजदूरों और गरीबों के मददगार होंगे। अन्य लोगों के विवादों के फैसले कर सकते हैं। अपने पद का इस्तेमाल ईमानदारी से करेंगे।

अरिष्ट से बचाव के लिए निम्न उपाय करना श्रेयस्कर होगा :

- पीपल को जल अर्पित करें।
- भोजन करने से पूर्व पहला कौर गाय को दें।
- मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं।

**अंतर्दशा :- शुक्र - बुध
(10/03/2028 - 09/01/2031)**

शुक्र महादशा की अवधि 20 वर्ष होती है। आपके लिए यह 10/03/2012 को प्रारंभ हुई थी और वद 10/03/2032 को समाप्त होगी। शुक्र महादशा में बुध अंतर्दशा की अवधि 2 वर्ष 10 मास रहेगी 10/03/2028 जो आपके लिए 09/01/2031 को समाप्त होगी।

बुध आपकी जन्मपत्री में चतुर्थ भाव में स्थित है। चतुर्थ भाव माता, स्वयं का मकान, घरेलू वातावरण, व्यक्तिगत संबंध, वाहन, बाग-बगीचे, पैतृक संपत्ति, शिक्षा, दूध, तालाब और झील आदि का प्रतिनिधि है।

चतुर्थ भाव में स्थित होकर बुध आपकी कुंडली के 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आप नीतिवान होंगे। शिक्षा में सफल रहेंगे। हाजिरजवाबी बढ़ेगी। सरकार के आलोचक होने के बावजूद समाज में सम्मान बढ़ेगा। कला और संगीत में रुचि हो सकती है। विदेश जा सकते हैं। वाहन सुख रहेगा।

शुभत्व में वृद्धि के लिए बुध के वैदिक मंत्र के 9000 जाप करें।



आचार्य उज्ज्वल कृष्ण शास्त्री जी

श्री धाम अयोध्या जी (सारंगपुर)

7906311562 , 7388947439

Ujjwalkrishna7388@gmail.com